



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 58] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 1984/माघ 24, 1905
No. 58] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 1984/MAGHA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1984

का. आ. 95 (अ).—भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) के
असाधारण अंक में भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष)
की अधिसूचना संख्या 110(अ), दिनांक 14 फरवरी, 1983 प्रकाशित हुई थी। उक्त
अधिसूचना के प्रथम पैरा में शब्द “उपखंड (1)” के स्थान पर “उपखंड (3)”
रखा जाए।

[सं. टी. डब्ल्यू/टी. जी. एन. (6)/83]

गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 1984

S.O. 95(E).—In the Government of India, Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) Notification No. 110(E) dated 14th February, 1983, Published in Extraordinary issue of Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) in place of the words “Sub-Section (1)” appearing in the first para of the said Notification the words “Sub-Section (3)” may be substituted.

[No. TW/TGM(6)83]

G. J. MISRA, Jt.Secy.